

January 15, 2020

8SE Limited, (Corporate Relationship Department), P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001

BSE Code: 530343

National Stock Exchange of India Ltd., (Listing & Corporate Communications), Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051.

NSE Symbol: GENUSPOWER

Dear Sir/Madam,

Sub: Copy of Public Notice of Board Meeting advertised in Newspapers.

Please find enclosed herewith a copy of public notice advertised in the newspapers with respect to the meeting of the Board of Directors of Genus Power Infrastructures Limited (the "Company") which will be held on Wednesday, January 22, 2020 at 11.00 a.m.

We request to kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours truly,

For Genus Power Infrastructures Limited

Directof/Company Secretary

Encl: Copy of Newspapers

Corporate Office.

(A Kailash Group Company)

Genus Power Infrastructures Limited

# **UP identifies 32K refugees for CAA**

BIHAR CM NITISH KUMAR SAYS NO JUSTIFICATION FOR COUNTRY-WIDE IMPLEMENTATION OF NRC

■ JAMIA VC SAYS WILL EXPLORE MOVING COURT FOR REGISTRATION OF FIR AGAINST 'POLICE BRUTALITY'

New Delhi, 13 January

he Congress and 19 other opposition parties on Monday met in the national capital and sought to strike a balance between supporting the anti-Citizenship Amendment Act (CAA) protests and asking the Narendra Modi govern-

nomic crisis" facing the country. In a resolution passed at the meeting, the Opposition asked the Centre to withdraw the CAA and told all non-Bharatiya Janata Party (BJP) governments to not implement the National Population Register (NPR) in their respective states.

ment tough questions about the "eco-

Some of the key opposition parties — the Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, Shiv Sena, Trinamool Congress, DMK, and Aam Aadmi Party — skipped the meeting. The DMK did not attend because of its disagreements with the local unit of the Congress in Tamil Nadu, while the AAP was not invited. CPI(M) leader Sitaram Yechury said nearly all parties that did not attend supported the struggle to protect the Constitution, and do not want NPR to be implemented.

Congress leader Rahul Gandhi wanted the meeting to focus on the Modi government's failures on the economy, but the Left and some of the other parties said the Opposition should continue to stand with those fighting for their constitutional rights. Later, Gandhi challenged the PM to explain the state of the economy to the protesting students and said India was on the road to become an economic "basket case".

Opposition sources agreed that constitutionally the states would need to follow the Centre's notification to carry out the Census and NPR in their respective states. They said they would dare the Centre to dismiss all these state governments, or it should amend the "discriminatory" CAA. Nearly a dozen state governments or their chief ministers have expressed reservation at carrying out the NPR. Opposition sources pointed out that state government employees would be collecting the Census and



Congress interim chief Sonia Gandhi, party leaders Rahul Gandhi and Ghulam Nabi Azad, Left leaders Sitaram Yechury and D Raja, Jharkhand CM Hemant Soren and others, in New Delhi on Monday

NPR data. The Budget session of data. In the first list, over 32,000 opposition on the issue.

#### **BJP hits back**

The BJP said the opposition unity stood exposed as key parties skipped the meeting. Union minister Ravi Shankar Prasad said the Opposition's resolution against the CAA must have made Pakistan happy, stating that the law was a chance to expose Islamabad's "barbaric treatment" of minorities. "The resolution is neither in national interest nor in the interest of security. It is also not in the interest of those minorities who fled neighbouring countries to escape persecution," Prasad said.

In a related development, the BJP-ruled Uttar Pradesh government has started the process to identify refugees for the implementation of the CAA, said UP minister Shrikant Sharma. He said all district magistrates in UP had been asked to collect In Patna, Bihar Chief Minister Nitish

Parliament is set to see a faceoff refugees have been identified in 21 of between the government and the the 75 districts and the exercise was going on in the entire state, he said. Most such refugees are in Pilibhit.

In another development, the parliamentary standing committee on home affairs at its meeting on Monday questioned Delhi Police officials over the use of force against protesting students and suggested that it should have dealt with the students in a mature manner. Islamia Jamia Millia

Vice-Chancellor Najma Akhtar on Monday said the varsity administration would explore the possibility of moving court for registration of an FIR against the "police brutality" on campus last month after hundreds of angry students gheraoed her office demanding action against the police.

Nationwide NRC needless: Nitish

**HPCL launches Mega Sales Campaign** 

Kumar said a country-wide implementation of National Register of Citizens (NRC) was "needless and had "no justification". Speaking in the state Assembly, Kumar said his government agreed in principle to carry out the NPR as they did likewise when such an exercise was last conducted in 2010. He said his government was ready to have a discussion in the House with regard to "extra details" being sought as part of the 2020 NPR. In its resolution, the Opposition expressed "grave concerns at the alarming deterioration in the livelihood status of the vast majority of our people due to the complete mismanagement of the Indian economy by the Modi government".

It said the economic crisis had pushed the economy to the verge of a recession, there is joblessness and increasing prices of petroleum products, cooking gas, vegetables and all essential commodities. "Modi government has created an economic disaster," it said.

## Would love to see a Bangladeshi immigrant next Infy CEO: Nadella

Indian-born Microsoft Chief Executive Officer Satya Nadella has reacted to the controversial Citizenship

Amendment Act (CAA), saying he would love to see a Bangladeshi immigrant create a Unicorn in India or become the next CEO of Infosys.

"I think what is happening is sad... It's just bad.... I would love to see a Bangladeshi immigrant who comes to India and creates the next Unicorn in India or becomes the next CEO of Infosys," online website BuzzfeedNews Editor-in-Chief Ben Smith wrote on Twitter on Monday, quoting Nadella as BS REPORTER saying.

### **Economist Bhaduri** gives up JNU post

**Economist Amit** Bhaduri has given up emeritus professorship at Jawaharlal Nehru University, alleging mishandling of the current situation by the university

administration.

In his letter to the vice-chancellor of JNU, Bhaduri expressed pain at throttling of dissent by the university administration. "It pains me but I feel it would be immoral on my part without registering my protest to remain a silent observer in this larger, sinister scheme of throttling dissent which is unfolding now at the university. ... I am giving up my emeritus professorship at JNU," he wrote in his mail.

Bhaduri had joined the university as a professor in 1973. He left it in 2001

# 'Temporary or permanent transfer of intellectual property attracts 12% GST'



### **CHATROOM**

T N C RAJAGOPALAN

We are manufacturers and exporters of agro chemicals (e.g., pesticides and weedicides). In connection with the manufacture of one of our products, we intend to import process technology to improve the yield of finished goods, with reduced process/ production time. The technology is normally imported in electronic form with an option to get a printed copy by courier. Please let us know the tax implications. This transaction is transfer of intel-

lectual property. As per entry no. 5(c) of Schedule II to the CGST Act, 2017, "temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right" is a service. But, permanent transfer of intellectual property is taxed, inexplicably, as a service as well as goods. As per S.No. 17 of notification no. 8/2017-IT (Rate) dated June 28, 2017, temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right in respect of goods other than information technology software, under the Service Code 9973. attracts IGST of 12 per cent.

As per S.No. 1 of Table in the notification no. 10/2017-IT (Rate) dated June 28, 2017, IGST on such a service from a non-resident to a resident is payable by the recipient of the service under reverse charge mechanism. "Permanent transfer of Intellectual Property (IP) right in respect of goods other than Information Technology software", falling under any Chapter is classified as goods also and attracts the same IGST rate of 12 per cent under S.No.243 of Schedule II of the notification 1/2017-IT (Rate) dated June 28, 2017. IP finds no mention in the Customs Tariff.

Under the EPCG scheme, is it necessary that for redemption, the export proceeds should have been realised? Will exports made, for which payment has not yet come forth, be counted towards discharge of export obligation? Please give the relevant provisions.

Para 5.11 of HBP says "export proceeds shall be realised in freely convertible currency except for deemed exports supplies under Chapter 7. Exports to SEZ units /Supplies to developers/co-developers irrespective of currency of realisation would also be counted for discharge of Export Obligation. Realisation in case of supplies to SEZ units shall be from foreign currency account of the SEZ unit.' Appendix-5C of the HBP also requires the chartered accountant to clearly certify that the exporter has submitted e-BRC and the same have been verified.

(ITCHS Code-22072000), which falls under the Restricted List. duty-free under Advance Authorisation, as per Para 4.18 (iv) of FTP, 2015-2020. However, after import, the overseas buyer has cancelled the export orders. The entire imported quantity is lying with us and we do not have any export order. Can we use this imported raw material to manufacture the finished product and sell in the domestic market, after paying Customs Duty, interest and 3 per cent of CIF Value (as per Para 4.49 (ii) of

We had imported ethyl alcohol

Yes. Para 4.49 of HBP clearly allows regulation of bona fide defaults even in cases where restricted items were imported under advance authorisation and remain unutilised in export production.

HBP, 2015-2020)?

 $Business\,Standard\,invites\,readers'\,SME\,queries\,related\,to\,excise,\,VAT\,and\,exim$ policy. You can write to us at smechat@bsmail.in

## **TENDER CARE**

## Inauguration of New tug Boat 'Ocean Victor'



hri Sanjay Sethi, IAS, Chairman, JNPT inaugurated the new Tug-Boat, **J**'Ocean Victor', in the presence of senior officials and stakeholders of JNPT. The newly inaugurated 'Ocean Victor' will help in handling vessels of various sizes thereby providing more safety during handling of large ships. Additionally, during strong tide and severe monsoon conditions, the tug-boat will add to the safety of operations.

## Indian Bank MD & CEO meets Shri. Yogi Adityanath, Hon'ble C.M., Uttar Pradesh



Ms Padmaja Chunduru, MD & CEO, Indian Bank paid visit to Shri. Yogi Adityanath, Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh on 08th January 2020 at Lucknow. Shri. K. Ramachandran, Executive Director, Allahabad Bank , and other officials were present during the Visit. Ms Padmaja Chunduru met Shri. Yogi Adityanath, Hon'ble C.M., Uttar Pradesh as a courtesy call. MD & CEO also met Shri. Suresh Chandra, Principal Secretary, (Labour), Govt of Uttar Pradesh.

## In a First in India JNPT Achieves New High, handles 5.10 million TEUs in 2019

awaharlal Nehru Port Trust (JNPT), India's premier container port main-Itained its impressive performance and achieved a new milestone in cargo handling, registering a throughput of 5.10 million twenty-foot equivalent units (TEUs) in the CY2019, compared to the 5.05 million TEUs achieved in 2018, becoming the first Indian port to scale the peak. JNPT has five container terminals, among them, APM Terminals Mumbai (GTI) handled 2 million TEUs during the year, followed by DP World NSIGT with 0.99 million TEUs and PSA BMCT's 0.82 million TEUs. JNPCT handled 0.77 million TEUs and the throughput of DP World NSICT was 0.52 million TEUs for the year. Along with the operational excellence, JNPT has been constantly working towards facilitating ease in doing business for the Trade. Under this JNPT took a major step by facilitating a MoU for a new Inter-Terminal Rail Handling Operation (ITRHO) Agreement, between all the terminals at JN Port. The new ITRHO Agreement was signed and agreed upon by all Terminals (JNPCT, NSICT, NSIGT, GTI and BMCTPL) on 29th July, 2019 which came into effect from 1st August, 2019. This is helping to maximize train placement, track productivity, efficiency, cost effective handling, reduce dwell time of import ICD boxes, connecting export ICD boxes to respective terminals in time and also increase rail share at JNPT. The Dwell time of import containers moved by rail, has improved from 116.09 hours in 2018 to 66.16 hours (Apr 18 to Mar 19) along with the increase in the rail share to 16.22 % from 14.66% in year 2018-19 (Apr 18 to Mar 19).

## **Commercial Feature**

PCL's Retail SBU has launched a mega sales campaign at 3000 HPCL ☐ retail outlets across India in association with Safilo India, the makers of Carrera and Polaroid sunglasses and optical frames. Customers filling Petrol at these select outlets (Rs.250/- for 2 wheelers and Rs.1200/- for 4 wheelers and Rs 250 for HP Refuel app) can participate in the campaign by sending SMS to 9321033330 HP<space>Dealer code<space>Bill no. The campaign will run for 2 months and will culminate with lucky draw



winners having a chance of winning grand prizes like Renault Kwid RXL cars and Bajaj Platina CT 100. Carrera gift vouchers and BookMyShow gift vouchers are there as weekly prizes for lucky customers. This mega campaign was launched by Shri S. K. Suri, Executive Director-Retail at a grand function at Mumbai on 2nd January, 2020 in the presence of Senior officials from Retail SBU of the Corporation.

## **Newly appointed Director Finance of MDL**



Chri Sanjeev Singhal joined Mazagon Dock Shipbuilders Limited as Director (Finance) on 8th January 20. He holds a First class degree in B.Com(Hons) from Delhi University, a qualified Cost Accountant (CMA) and a recipient of 'Certificate of Merit' from the Institute of Cost & Management Accountants of India. He started his career with Steel Authority of India Limited (SAIL) at Rourkela Steel Plant, Odisha. Before joining

MDL, he was Director (Finance) at Mishra Dhatu Nigam Limited (MID-HANI) for three years. He has a distinguished career of more than 32 years with rich experience in all major areas of the Finance. Besides, he hasbeenawarded the prestigious "Jawaharlal Nehru Award" at SAIL for being an outstanding PSU executive in 2011. During his career at SAIL, he was amongst the few Finance Executives from Rourkela Steel Plant (RSP) selected for the prestigious "Assessment Development Centre" (ADC) evaluation & training, a flagship programme of SAIL to identify and nurture talent for future leadership roles. He successfully completed all 18 Management modules subscribed by SAIL from Harvard Business School.

## **C&MD-HPCL Conferred Business Today** Best CEO (Oil and Gas) Award



PCL's Chairman and Managing Director, Shri M K Surana was con-In ferred with Best CEO award for Oil and Gas Sector by Business Today at Business Today MindRush Conclave in Mumbai on 13th December 2019. The award was presented by Hon'ble Minister P&NG and Steel, Shri

## 🖳 emami limited

CIN: L63993WB1983PLC036030 Regd. office: Emami Tower, 687, Anandapur E M Bypass, Kolkata-700107, West Bengal

#### e-mail: investors@emamigroup.com NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors of the Company will be held on February 7th, 2020, Friday at 11:30 a.m. at Emami Anandapur, E.M. Bypass, Kolkata – 700107, inter-alia, to consider and approve the unaudited standalone and consolidated Financial Results of the company for the quarter and nine months ended 31st December, 2019.

Further details are available on the website of the Company at www.emamiltd.in and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.nseindia.com www.bseindia.com and www.cse-india.com

For Emami Limited Sd/-A.K. Joshi Company Secretary & VP-Legal Place: Kolkata Date: 13.01.2020

#### Business Standard **MUMBAI EDITION**

Printed and Published by Sangita Kheora on behalf of Business Standard Private imited and Printed at M/s. Dangat Media Private Limited, 22 Digha M.I.D.C., TTC dustrial Area, Vishnu Nagar, Digha, Nav Mumbai, 400708 and M/s, Nai Dunia 23/4, 23/5, Sector-D, Industrial Area, J.K. Road, Near Minal Residency, Bhopal

(M.P.)-462023. & Published at H/4 & I/3, Building H. Paragon Centre, Opp Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai- 400013

> Editor : Shyamal Majumdar RNI NO: 66308/1996

Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in For Subscription and Circulation

Ms. Mansi Singh **Head-Customer Relations** Business Standard Private Limited. H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli,

Mumbai - 400013 E-mail: subs\_bs@bsmail.ir "or sms, SUB BS to 57007"

## (Mumbai Edition Only)

One year subscription rate by air mail INR 51765: USD 725

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased pi ture of developments in the markets, the corpora world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledg Business Standard does not take any responsibili ers on the basis of reports and articles published in

ess Standard does not associate itself with o stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be direct ed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing. lication, reproduction, transmission or re nation of the contents, in any form or by any sent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such ohibited and unauthorised act by any per

**No Air Surcharge** 

## Genus Power Infrastructures Limited Genus

(CIN: L51909UP1992PLC051997)
(Regd. Office: G-14, Sector-63, Noida-201307 (U.P.)) (Ph.: 0120-4227116)
(Corporate Office: SPL-3, RIICO Industrial Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur-302022)
(Ph.: 0141-7102400/500, Fax: 0141-2770319,
E-mail: cs@genus.in, Website: www.genuspower.com)

## NOTICE

PTI

Pursuant to Regulations 29 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 as amended, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, January 22, 2020 at 11:00 a.m., to inter alia, consider and approve the unaudited financial results (standalone and consolidated) for the third quarter and nine-months ended December 31, 2019. The Trading Window is closed from January 1 2020 till 48 hours after the financial results of the Company for the quarter and nine-months ended on December 31, 2019 become generally available information. The said information may be accessed on the Company's website i.e. www.genuspower.com and may also be accessed on the Stock Exchanges' website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

## Nath Bio-Genes (I) Ltd. Regd. Off: Nath House, Nath Road, Aurangabad 431005, Maharashtra CIN: L01110MH1993PLC072842

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given, pursuant to Regulations 29, 47 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Meeting of The Board of Directors of the Company is scheduled on Thursday 30th January 2020, at Nath House, Nath Road Aurangabad, to inter-alia, consider and approve unaudited financial results, for the quarter and nine month

Place: Aurangabad Date: 11th January, 2020

period ended 31st December, 2019.

For Nath Bio-Genes (India) Limited Company Secretary

#### **ALICON CASTALLOY LIMITED** CIN: 199999PN1990PLC059487

Regd. Office: Gat No. 1426, Village Shikrapur, Taluka Shirur, District Pune - 412208, Maharashtra, Tel: 02137-677100, Email: Swapnal.patane@alicongroup.co.in, Website: www.alicongroup.co. NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, January 28, 2020, inter-

on December 31, 2019. The financial results will be made available on the website of the Company at www.alicongrouop.co.in as well as on the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited a

alia, to consider and approve the financial results for the third quarter ende

For ALICON CASTALLOY LIMITED

Place: Shikrapur, Pune Date: 13.01.2020

S Rai Managing Director DIN - 00050950

### हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड HINDUSTAN COPPER LIMITED www.hindustancopper.com

आरईएफ सं./Ref No. : HCL/HO/MKTG/CONCENTRATE SALE/2019-20 दिनांक / Date: 14.01.2020 ्एक्स-एमसीपी/एफओबी, विशाखापट्नम के आधार पर मलंजखंड ताम्र परियोजना के 25,000

डब्ल्यूएमटी +/-10 % तांबा सांद्र की बिक्री के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। Tenders are invited for SALE of 25,000 WMT+/-10 % Copper Concentrate of Malanjkhand Copper Project on Ex-MCP/FOB, Visakhapatnam basis.

बोली जमा करने की अंतिम तिथि/Last Date of Bid Submission : 23.01.2020 up to 3.00 PM IST.

विस्तृत विवरण के लिए देखें एच. सी. एल. वेबसाइट For details see HCL website, www.hindustancopper.com & https://etenders.gov.in/eprocure/app

Office: Tamra Bhavan,1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
-700 019, Tel: 91 33 2283 2226, Tele Fax: 91 33 2283 2478,
Email: sunil p@hindustancopper.com

## ≪ Chola

CHOLAMANDALAM FINANCIAL
HOLDINGS LIMITED

Regd. Office: 'Dare House', No.234, N.S.C. Bose Road, Chennai 600 001. CIN: L65100TN1949PLC002905

Email: investorservices@cfhl.murugappa.com Website: www.cholafhl.com Tel: 044-42177770-5, Fax: 044-42110404

Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company to inter alia consider and approve th unaudited financial results for the quarter/period ended December 31, 2019. The above information will be also available http://www.cholafhl.com/statutory-advertisemer and on the websites of the Stock Exchange viz., www.bseindia.com and

By Order of the Board Date : January 13, 2020 Company Secretary

## **PUBLIC NOTICE**

NOTICE is hereby given to the public at large that my client named Swapnii Shantaram Gawli had purchased the shop from M/s Chimane Sanmitra Sahakari Patsanstha Maryadit vide an Sahakari Patsanstha Maryadit vide an Agreement which is Registered in the office of the Sub-Registrar Kurla city vide document no. KRL-5/11071/2019 dated 13/08/2019. Property details are Shop No. 3, Ghatkopar Hira CHSL Hingwala Lane Ghatkopar Alumbai 400 007 Villaga Chatkopar Talluka Kurla & District Mumbai admeasuring about 22.76 Sq. Mtr. Carpet area lying, being and situated at Hingwala Lane, constructed on the land bearing CTS No. 5794. The said property was in the name of Hemilata Rampiklal was in the name of Hemlata Ramniklal Veera and she had purchased the above shop from M/s K.K.Patel & Sons in the snop from M/s K.K.Patel & Sons in the year 1980. Redrose Estates & Hotels Private Limited had purchased the said property from Hemlata Ramniklal Veera in the year 1989. M/s Chimane Sanmitra Sahakari Patsanstha Maryadit had purchased the shaws then from Paddese ourchased the above shop from Redrose Estates & Hotels Private Limited in the ear 1991. Share Certificate of Shop No 3 bearing its Member Registration No 003 shares from 11-15 are in the name or

M/s Chimane Sanmitra Sahakari Patsanstha Maryadit.

1.Agreement done in the year 1980 between Hemlata Ramniklal Veera and M/s K.K.Patel & Sons 2. Agreement done in the year 1989 between Redrose Estates & Hotels Private Limited and Hemlata Ramniklal Veera 3. Agreement done in the year 1991 between Redrose Estates & Hotels Private Limited and McChimane Sampitra Sahakari Patsanstha Chimane Sanmitra Sahakari Patsanstha Chimane Samitra Sahakan Patsanstha Maryadit and stamp duty receipt and Registration Receipt had also been misplaced through Swapnil Shantaram Gawli for which Swapnil Shantaram Gawli had already lodged a complaint at Pantnagar police station Mumbai vide complaint no. 2760/2019 dated 14th November 2019 lovember 2019.

M/s Chimane Sanmitra Sahakar

If anyone finds the document or any If anyone finds the document or any person(s) having any claim in respect of the above referred property or part thereof by way of sale, exchange, mortgage, charge, gift, maintenance, inheritance, possession, lease, tenancy, sub tenancy, lien, license, hypothecation, transfer of title or beneficial interest under any trust, any gift deed, will, mortgage, or any type of claim in respect of above said property for claiming the title of the property, please file objection within 15 days from the date of publication of this days from the date of publication of this notice. For filing of objection in writing address is as below.

(Adv. Aditya H. Gade) High Court, Mumbai A.G. Associates,

401, Gajanan Commercial Complex Above Green Apple, Near Cidco Bus stop, Thane West – 400 601

इरविन ब्राइच व एसपीजीपी होल्डिंग्स की 1.2 अरब डॉलर की पेशकश खारिज

₹ 44.80 पिछला बंद भाव ₹ 42.10 आज का बंद भाव

बलरामपुर चीनी मिल्स <sup>-195</sup> 160 किलो लीटर प्रति दिन क्षमता की डिस्टिलरी इकाई चालू ₹ 184.05 ਪਿਲ਼ੁਆ ਗੁੰਫ ਮਾਰ ₹ 191.20 आज का बंद भाव



\_500 यूरोपीय ऋण का 490 पुनर्वित्तपोषण सफल ₹ 486.55 ਧਿਲਕਾ ਗੰਟ भाव ₹ 495.55 आज का बंद भाव हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स 735.95

भारतीय रक्षा बल के लिए सामरिक महत्त्व से फायदा ₹ 735.95 पिछला बंद भाव

## संक्षेप में

## टाटा पावर की इकाई को एनटीपीसी से बड़ा ऑर्डर

टाटा पावर की पर्ण स्वामित्व वाली इकाई को सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी से 250 मेगावॉट की सौर परियोजना का 1.505 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। इसके बाद टाटा पावर सोलर की ऑर्डर बुक 7,600 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने कहा है कि उसे एनटीपीसी से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना (सीपीएसयू) के तहमत 250 मेगावॉट की सौर परियोजना का ठेका मिला है। यह ठेका 1,505 करोड़ रुपये का है और इसे 20 माह में पूरा

## इपिफी ने सिकोया, रिबिट कैपिटल से ज्टाई रकम

बेंगलरु की नियो बैंकिंग स्टार्टअप इपिफी ने सिकोया इंडिया तथा रिबिट कैपिटल से 1.32 करोड डॉलर (लगभग 93.4 करोड रुपये) का शुरुआती कोष (सीड कैपिटल) जुटाया है। कंपनी ने कहा है कि वह इस राशि का इस्तेमाल अपने प्रमुख प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को बनाने, बिक्री और विपणन पहल तथा प्रौद्योगिकी टीम के विस्तार पर करेगी। बयान में कहा गया है कि सिकोया इंडिया और रिबिट कैपिटल के अलावा पिलहाउस कैपिटल तथा एंजल निवेशक डेविड वेलेज और क्रेड के संस्थापन एवं मुख्य कार्यकारी कुणाल शाह भी वित्तपोषण के इस दौर में शामिल हुए।

# इंडिगो को मिला 4 माह का समय

## कंपनी को बदलने होंगे विमानों के प्रैट ऐंड व्हिटनी इंजन

अनीश फडणीस मुंबई, 13 जनवरी

गरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो को अपने एयरबस ए320नियो विमानों में पुराने प्रैट ऐंड व्हिटनी इंजन को बदलने के लिए चार महीने का अतिरिक्त समय दिया है। डीजीसीए ने नवंबर में इसके लिए जनवरी के अंत तक की समय-सीमा निर्धारित की थी जिसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। साथ ही विमानन कंपनी को क्षमता विस्तार के लिए नए विमान तैनात करने की अनुमित भी दी गई है।

विमानन नियामक के इस फैसले से इंडिगो को काफी राहत मिली है और अब वह नए एवं पुराने मार्गों पर नए विमानों की तैनाती कर सकेगी। डीजीसीए के पिछले निर्देश के बाद विमानन कंपनी ने चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के लिए क्षमता विस्तार संबंधी अनुमान को घटा दिया था।

इंडिगों 257 विमानों का परिचालन करती है जिसमें 106 एयरबस ए320/321 नियो विमान हैं। हालांकि ताजा बैच के विमानों में नए इंजन लगा दिए गए हैं लेकिन लो प्रेशर टरबाइन ब्लेड में खराबी के कारण कंपनी के बेडे में शामिल पुराने विमानों में भी इंजन इंजन बदलने की कवायद



**■**डीजीसीए ने पहले जनवरी के अंत तक की समय-सीमा निर्धारित की थी जिसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है

■विमानन कंपनी को क्षमता विस्तार के लिए नए विमान तैनात करने की अनुमति भी

बदलने की जरूरत है। शुरू में जिन विमानों में इंजन बदलने की आवश्यकता थी उनकी संख्या 120 थी लेकिन अब अतिरिक्त जांच के बाद उसकी संख्या बढ़कर 135 हो चुकी है।

डीजीसीए ने आज जारी एक बयान में कहा है, 'पूरे बेड़े में कम से कम एक नया इंजन बदलने की प्रक्रिया इंडिगो ने यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी

एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव द्वारा निर्धारित समय-सीमा 31 मार्च से पहले पूरी कर ली है। इंडिगो के बेड़े में करीब 70 फीसदी नियो इंजन को बदलने का काम 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा।' डीजीसीए ने कहा है कि क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण इंजन की खरीद प्रभावित हुई। एयरबस और प्रैट ऐंड व्हिटनी ने अपनी कार्य योजना में कहा था कि सभी 135 इंजन बदलने की प्रक्रिया जुन तक पूरी हो जाएगी। हालांकि डीजीसीए ने उन्हें मई के अंत तक इसे पुरा करने के लिए कहा था। डीजीसीए ने कहा है कि इंडिगो के बेड़े में पुराने इंजन के साथ किसी भी विमान को उडान भरने की अनुमति नहीं होगी।

डीजीसीए ने कहा, 'मौजूदा जांच के साथ-साथ मिड टरबाइन फ्रेम (एमटीएफ) पिस्टन सील की जांच जैसे उपायों से इंजन में खराबी को दूर करने में मदद मिलेगी।' प्रैट ऐंड व्हिटनी ने एमटीएफ पिस्टन सील में टूट को 50 फीसदी इंजन में खराबी का कारण बताया था। विमानन कंपनी ने पिछले महीने एक निवेशक प्रस्तुति में कहा कि डीजीसीए के आदेश का असर भविष्य की क्षमता पर दिख सकता है। वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर क्षमता में 15 से 20 फीसदी और पूरे वित्त वर्ष 2020 में 22 से 23 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है। इससे पहले विमानन कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही के लिए 22 फीसदी और वित्त वर्ष 2020 के लिए 25 फीसदी की विद्ध का अनुमान जाहिर किया था। हालांकि इंडिगो ने यह भी कहा कि इससे विमानन कंपनी की लाभप्रदता पर असर नहीं पड़ेगा और उसने मुनाफे के लिए अपना अनुमान बरकरार रखा।

## वाडिया ने टाटा के खिलाफ मुकदमा वापस लिया

मुंबई, 13 जनवरी

वाडिया समूह के चेयरमैन नुस्ली वाडिया ने टाटा समह के संरक्षक रतन टाटा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा आज वापस ले लिया। इससे पहले टाटा ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि वाडिया के मान हनन की उनकी कोई मंशा

नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय में टाटा के बयान रिकॉर्ड होने के बाद वाडिया ने अपनी याचिका वापस ले ली। सर्वोच्च न्यायालय ने ७ जनवरी को सुनवाई के दौरान इस मामले को आपसी बातचीत के जरिये निपटाने का सुझाव दिया था। इस मामले से अवगत एक सत्र ने कहा कि दोनों उद्योगपितयों के बीच कोई बैठक नहीं हुई और अदालत में समझौता हो गया। इसके साथ ही देश के दो सबसे पुराने कारोबारी घराने के बीच तीन साल पुनाना विवाद खत्म हो गया है। वाडिया ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। बंबई उच्च न्यायालय ने टाटा के खिलाफ वाडािय की मानहानि की याचिका खारिज कर दी थी।

वाडिया ने टाटा के खिलाफ 3,000 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति

की मांग के साथ दीवानी मानहानि मुकदमा भी वापस लेने के लिए अपनी सहमति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सौहार्दपर्ण तरीके से इस मामले को निपटाने और सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव का सम्मान करते हुए मुकदमा वापस लेने के लिए वाडिया की सराहना की।

वाडिया ने 2016 में तीन कंपनियों- टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील- से वोटिंग के जरिये बाहर किए जाने के बाद टाटा एवं अन्य के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। टाटा के दोस्त से दुश्मन बने वाडिया ने 1990 के दशक में टाटा को पुराने दिग्गजों से लड़ने में मदद की थी। वह जेआरडी टाटा के समय से ही टाटा समह की कंपनियों के बोर्ड में शामिल रहे थे। लेकिन अक्टूबर 2016 में टाटा समृह के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद उनके बीच मतभेद पैदा हो गया था। वाडिया ने मिस्त्री का समर्थन किया था और कहा था कि मिस्त्री द्वारा उठाए गए विरासत संबंधी मुद्दे सही हैं। उसके बाद वाडिया को सभी तीन कंपनियों के बोर्ड से बाहर कर दिया गया। वाडिया ने टाटा एवं अन्य के खिलाफ मानहानि का मुदकमा दायर कर दिया था।

# इंडियन ओवरसीज बैंक

ई-नीलामी नोटिस में संपत्ति नं. 5 के तहत कर्जदार खात श्रीमती सुनीति थापर, श्रीमती तन् थापर और श्रीमती खेता थापर के संदर्भ में है। इसमें निम्नवत् एक सुधार है-(1) संपत्ति नं. 5 के लिए आरक्षित मूल्य "रु. 37.80 ईएमडी "रु. 3.78 लाख" पढ़ी जाए।

अन्य सभी विवरण यथावत् रहेगा। स्थानः नई दिल्ली, दिनांकः 13.01.2020 इंडियन ओवरसीज बैंक

## ओयो 1,000 से अधिक छंटनी करेगी फोनपे की रकम जुटाने की योजना को **झटका**

नई दिल्ली, 13 जनवरी

हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो भारत में पुनर्गठन तथा विभिन्न कारोबार के बीच कार्य दोहराव को कम करके बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से करीब 1,000 से अधिक लोगों की छंटनी करने की योजना बना रही है। ओयो (भारत एवं दक्षिण एशिया) द्वारा

कंपनी के संस्थापक तथा ओयो ग्रुप मुख्य कार्याधिकारी रितेश अग्रवाल ने कहा कि कछ साथी कर्मियों से ओयो से बाहर नई नौकरी खोजने के लिए कहना 'आसान निर्णय' नहीं था।

हालांकि कर्मियों को भेजे मेल में निकाले जा रहे लोगों की संख्या नहीं बताई गई है लेकिन इस मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह संख्या 1,000 से अधिक हो सकती कर्मचारियों को भेजे एक आंतिरक ईमेल में है। उन्होंने बताया कि इसका प्रमुख कारण कंपनी द्वारा 'सही आकार' पाने के

लिए किए जाने वाले बदलाव हैं।

अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2020 के नए रणनीतिक उद्देश्यों के तहत ओयो लीडरशिप टीम की तरह ही बेहतर कारोबार के लिए दूसरी टीमों का भी पुनर्गठन करेगी। उन्होंने कहा, सतत विकास, परिचालन एवं ग्राहक उत्कृष्टता, लाभप्रदता और प्रशिक्षण एवं शासन कंपनी के रणनीतिक उद्देश्य हैं और इसका अर्थ है कि दुर्भाग्य से ओयो में कुछ भूमिका तर्कहीन हो जाएंगी क्योंकि कंपनी दक्षता बढाने तथा दोहराव वाली भूमिकाएं समाप्त करने के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल करेगी। उन्होंने लिखा, 'इससे प्रभावित कुछ कर्मियों को हमने ओयो के बाहर नई करियर संभावनाएं खोजने के लिए कहा है। '

बेंगलूरु, 13 जनवरी

रकम जुटाने की बड़ी योजना के साथ बाजार में उतरने की तैयारी कर रही डिजिटल भुगतान फर्म फोनपे को इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। इस मामले से अवगत सूत्रों ने बताया कि उसके प्रस्ताव को अधिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी 1.2 अरब डॉलर यानी करीब 8.500 करोड़ रुपये जटाने के लिए कई बडे वैश्विक निवेशकों से बातचीत कर रही है। वर्ष 2018 में वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के बाद से ही कंपनी की नजर 10 अरब डॉलर के मुल्यांकन पर रही है।

हालांकि अभाव, नई ई-कॉमर्स एवं डेटा नीति और कुल मिलाकर निवेश माहौल के कारण इस प्रक्रिया की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। सूत्रों का कहना है कि निवेशक कंपनी का मुल्यांकन उस स्तर तक करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी वजह से बातचीत में प्रगति नहीं दिख रही है। जबिक चर्चा है कि यह



### विविधीकरण की समस्या

- कंपनी **1** अरब डॉलर जुटाने के लिए कर रही बातचीत
- कंपनी की नजर **10** अरब डॉलर के मूल्यांकन पर
- इस पेशकश के लिए तैयार नहीं
- उन्हें लगता है कि फोनपे का कारोबार पूरी तरह विविधीकृत
- **■** टेनसेंट, सॉफ्टबेंक, नैसपर्स, वीजा आदि तमाम निवेशकों के साथ चल रही बातचीत

दिनांक 17.12.2019 आर. सी. सं. 537/2018 बिक्री उदघोषणा ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम रजत गलाटी एवं अन्य

कार्यालय वसूली अधिकारी-॥

ऋण वसली अधिकरण-।।।, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

बिक्री की उद्घोषणा अन्तर्गत आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित ...... सीडी नं. 1 रजत गुलाटी पुत्र किशोर गुलाटी, फ्लैट नं. 278, ततीय तल, ब्लॉक जीएच–2, सेक्टर–28, रोहिणी, दिल्ली, और: मकान नं. 135,

सीडी नं. 2 निशा रानी पत्नी रजत गुलाटी, फ्लैट नं. 278, तृतीय तल, ब्लॉक जीएच—2, सेक्टर—28, रोहिणी, दिल्ली, और: मकान नं. 135, तृतीय तल, ब्लॉक-ई, पॉकेट-2, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली

जैसा कि आपने पीठासीन अधिकारी. ऋण वसली अधिकरण-।।। दिल्ली द्वारा ओ ए नं. 49/2015/डी आर टी-।।। दिल्ली, ऋणवसली नाणपत्र के संबंध में आपके 🖊 उनके द्वारा देय योग्य **रु. 27,77,633.72 (रु. सत्ताईस लाख सतहत्तर हजार छः सौ तैतीस और पैसे बहत्तर मा**त्र) **दिनांक 26.12.2014 से प्रभावी 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं लागतो का प्रमाण-पत्र के अनुसार** ब्याज एवं खर्चे, देय योग्य याज व लागत का भुगतान प्रतिवादी रुप से नही किया गया है।

और जैसाकि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र से संतृष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कोई स्थान के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी वेबसाईट

http://www.dri.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिडींग" के माध्यम से दिनांक 26.02.2020 को अर्पा. 03.00 बजे से अर्पा. 04. 00 बजे के बीच (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती है) ई-नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो **मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., (ABC Procure) ए–201/208, वॉल स्ट्रीट–11, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात** कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात इण्डिया, फोन नं. +91 079 40016800 के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी । किसी पूछताछ के लिए **श्री नितिश झां, मोबाइल नंबर 07982880383, ई—मेल** : <u>delhi@auctiontiger.net</u> **से सम्पर्क करें ।** संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु और निरीक्षण हेतु **डीआरटी—।।।, दिल्ली से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।** 

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक र्निधारित किया

गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है । सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध मे बिकी को तरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपूर में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथव प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी बिक्री उदघोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

	आरक्षित मूल्य के नाच सम्पात नहां बंचा जाएगा।				
क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य /(ईएमडी)			
1.	सम्पत्ति फ्लैट नं. 135, तृतीय तल, (छत के अधिकार सहित), ब्लॉक-ई, पॉकेट – 2, सैक्टर–16, रोहिणी,	<b>ড.</b> 28,75,000/-			
	दिल्ली में स्थित	रु. 2,87,500/-			

बोली, कम से कम रू. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) गुणाकों में बढ़ाई जा सकेगी। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद

उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी।

एवं लागत अद्योहस्ताक्षरी को भूगतान किए जा चुके हैं।

किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिक होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।

धरोहर राशि जमा करने हेत पे आर्डर / डिमांड डाफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली ह देययोग्य हो को **वसूली अधिकारी—।।, डीआरटी—।।।, दिल्ली को दिनांक 24.02.2020 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी व

पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई—मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उद्धोषणा कि वे स्वंय की ओर से या अपने स्वामी की और से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की और से बोली लगाने वाले मामलो में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अरवीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी / प्रतिनिधित्व को पष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद / काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई–मेल या अन्यथा द्वार कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) वसूली अधिकारी—।।, डीआरटी—।।।, दिल्ली वे कार्यालय में जमा कराना होगा।

सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक निर्धारित विवरणानुसार जमा करनी होगी।

7. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन** के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता** को रू. 1,000 /— तक बिक्री मुल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000 /— से अधिक पर बिक्री मुल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी—।।।, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी—।।, डीआरटी—।।।, दिल्ली के पास जमा करना होगा। . असफल बोलीदाता / ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी–।।। की रजिस्ट्री नें पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर.सी. अनुसूची 🖊 सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा

. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, जमा राशि, बिक्री संबंधी व्यय चुकाने के पश्चात, सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा चुककर्ता क्रेता के सम्पत्ति अथवा अनुवर्ती बिक्री से प्राप्त राशि अथवा उसके किसी भी अंश पर सभी दावे जब्त माने जाएंगे। सम्पत्ति की बिक्री तत्संबंधी घोषणा जारी करने के बाद नए सिरे से की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को उसकी अंतिम बोली तथा अनुवर्ती बिक्री मुल्य के

10. सीएच बैंक को वर्णित सम्पत्ति को प्रामाणित और उसकी सच्चाई के बारे में सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया गया है। 11. सम्पत्ति को "जहाँ हैं जैसा है और जो कुछ हैं आधार" पर बेचा जाएगा।

सम्पत्तियों की अनुसूची

ı							
	CIIC	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह—स्वामित्व में है।	किसी भाग पर राजस्व जिसका मत्यांकन	भार का विवरण जिसके लिए	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।		
	1.	सम्पत्ति फ्लैट नं. 135, तृतीय तल, (छत के अधिकार सहित), ब्लॉक—ई, पॉकेट — 2, सैक्टर—16, रोहिणी, दिल्ली में स्थित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		
ı	मेरे	समक्ष दिनांक 17.12.2019 को मोहर किया गया	(अनि	ल कुमार यादव) व	स्तूली अधिकारी—।, अति. चार्ज		

#### जीनस पावर इन्फ्रास्ट्क्चर्स लिमिटेड Genus (CIN: L51909UP1992PLC051997)

्रिपंत्रीकृत कार्यालयः ची-14, सेक्टन-63, नोएडा-201307, उत्तर प्रदेश) ( फोन: 0120-4227116) ( कॉर्पोरेट कार्यालयः इपी-3, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुरा, टॉक रोड, जयपुर-302022, राजस्थान ( फोन: 0141-7102400/7102500, फैक्स: 0141-2770319, ई-मेल: **cs@genus.in**, वेबसाइटः **www.genus** 

## सुचना

मेबी ( लिस्टिंग आब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वार्यमेन्ट ) अधिनियम, २०१५ के नियम २९ एवं ४७ के अनपालन में एतद द्वारा सचना प्रदान की जाती है कि जीनस पावर इन्फ्रास्टचर्स लिमिटेड की निदेशक मण्डल की बैठक बंधवार, 22 जनवरी 2020 को प्रात: 11 बजे अन्य तथ्यों के साथ 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही एवं नोमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों ( स्टैंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड ) पर विचार एवं सहमति हेतु निर्धारित की गई है। कंपनी के शेयर में लेनदेन हेतु ट्रेडिंग विंडो 01 जनवरी 2020 से वित्तीय परिणामों के स्विजनिक होने के बाद 48 घण्टों तक बंद रहेगी। उक्त सूचना की जानकारी कंपनी की वेबसाइट: www.genuspower.com एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटो: www.nseindia.com तथा www.bseindia.com से भी ली जा सकती हैं ।

दिनांक: 13 जनवरी, 2020

### बिज़नेस स्टैंडर्ड दिल्ली संस्करण

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-८, सेक्टर-७, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-२०१३०१ उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, ४ बहादुर शाह जुफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित संपादकः कैलाश नौटियाल

आराग्नआर्ड न0 DELHIN/2008/27804 पातक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन- 011-23720202-10 फैक्स 011-23720201

सब्सक्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया सम्पर्क करें.. सुश्री मानसी सिंह हेड कस्टमर रिलेशन्स

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/४ एवं आई/३, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ई मेल.. subs\_bs@bsmail.in या ५७००७ पर एसएमएस करें SUB BS

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाकम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टेंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेशा की जाती है। बिजनेस स्टेंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है।विज्ञापनों से संबंधित किसी

स्पेड जे तो जुड़ा हुआ है आर वहाँ उपयोग तम्बन्ध करता है। विद्वाचान संस्वाधात किया भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। भै0 विजनस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 का सर्वाधिकार सुरक्षित है। विजनस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 से लिखत अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

कोई हवाई अधिभार नहीं

भुगतान कंपनी टेनसेंट, अमेरिकी भुगतान फर्म वीजा, सॉफ्टबैंक, नैसपर्स और सॉवरिन फंड जैसे कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एवं

कंपनी की रकम जुटाने संबंधी योजनाओं से अवगत एक व्यक्ति ने कहा, 'यदि वे मूल्यांकन (10 अरब डॉलर) का मुल्यांकन हासिल कर लेते हैं तो वे रकम जुटा लेंगे। पिछले कुछ महीनों के दौरान उन्होंने खद इस प्रक्रिया की रफ्तार सुस्त कर दी है। उनकी चुनौतियां केवल इतनी थी कि निवेशक उन्हें इस तरह का मूल्यांकन नहीं दे रहे थे क्योंकि उनका कारोबार विविधीकत नहीं है और वे केवल भगतान कारोबार में हैं।' उस व्यक्ति ने कहा, 'साथ ही, कुल मिलाकर निवेश का माहौल सुस्त है। फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के साथ-साथ नई डेटा

कनाड़ा पेंशन फंड़ से बातचीत कर

रही है।

फिनटेक क्षेत्र में उसके प्रभाव का भी असर दिखा है।'

फोनपे को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।

## पृष्ठभूमि

वर्ष 2018 में 16 अरब डॉलर के एक सौदे के तहत फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के साथ ही फोनपे वॉलमार्ट के नियंत्रण में आई। सत्रों के अनुसार, वॉलमार्ट चाहती है कि फोनपे अपने कारोबार के विस्तार के लिए बाहरी निवेशकों से रकम जुटाए और अलीबाबा के निवेश वाली भुगतान फर्म पेटीएम, गगल पे और एमेजॉन पे जैसी प्रतिस्पर्धियों को टक्कर दे। साथ ही उसकी नजर यहां के भगतान एवं वित्तीय सेवा बाजार पर भी है।

नीति और भुगतान के इतर व्यापक की शर्त पर एक व्यक्ति ने कहा, 'वॉलमार्ट एमेजॉन जैसी नहीं है। वह फोनपे में अधिक निवेश नहीं इस बाबत जानकारी के लिए करना चाहती क्योंकि उसे फ्लिपकार्ट में भी निवेश करना है। इसके अलावा वह अमेरिकी ई-कॉमर्स बाजार में भी काफी निवेश

> ईवाई इंडिया के पार्टनर अंकुर पाहवा के अनुसार, विशेष तौर पर भगतान एवं वॉलेट क्षेत्र में फिनटेक उद्योग ने काफी प्रगति की है लेकिन उसे अभी लंबा सफर तक करना बाकी है। जैसे उधारी. निवेश एवं बीमा जैसे क्षेत्रों में।

## प्रगति

कर रही है।'

वित्तीय सेवा बाजार में फोनपे की पैठ काफी बढी है। अगले कछ वर्षों में देश के वित्तीय सेवा बाजार का आकार बढकरक 340 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

## होंडा: नए मॉडल संग गैस पर दांव

अपनी पहचान जाहिर न करने

चेन्नई, 13 जनवरी

जापान की प्रमुख वाहन कंपनी होंडा ने भारत में लगे हालिया झटके के बाद नए मॉडलों के साथ कारोबार को रफ्तार देने की योजना बनाई है ताकि वृद्धि को वापस पटरी पर लाया जा सके। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट के साथ इस वित्त वर्ष के पूरे होने के आसार हैं लेकिन कंपनी 2020-21 में वृद्धि की पिछली रफ्तार हासिल कर लेगी। होंडा ने वित्त वर्ष 2015-16 में 1,92,000 वाहनों की बिक्री की थी। जबकि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने यानी अप्रैल से दिसंबर की अवधि में कंपनी ने 85,751

वाहनों की बिक्री की है। उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी को उसके बड़े ब्रांड की वापसी और विश्वसनीयता का फायदा मिला है लेकिन उसने बदलते बाजार में त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसमें डीजल से पेट्रोल

में और फिर पेट्रोल से डीजल की ओर ग्राहकों का रुझान और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (एसयूवी) को प्राथिमिकता भी शामिल है।

मुल्य एक अन्य कारण है। होंडा ने प्रीमियम सिडैन श्रेणी में अपनी पहचान बनाई है लेकिन वह छोटी कार बाजार की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाई। उदाहरण के लिए, कंपनी ने इस श्रेणी में प्रीमियम हैचबैक जैज को उतारा जहां मारुति की स्विपट का वर्चस्व है। हालांकि जैज ने ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया लेकिन अधिक कीमत के कारण बिक्री के मोर्चे पर उसकी रफ्तार सुस्त पड गई। बाद में कंपनी ने ब्रियो को उतारा लेकिन तब तक बाजार पर मारुति, हुंडई एवं अन्य कंपनियां काबिज हो चुकी थीं।

होंडा कार्स इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) राजेश गोयल ने दावा किया कि होंडा ग्राहकों का काफी पसंदीदा ब्रांड है जो अपनी मजबूती, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए जाना

जाता है। उन्होंने कहा, 'हम कभी भी बाजार का बडा खिलाडी नहीं रहे हैं।' साथ ही, उत्पाद कभी कोई समस्या नहीं रही और पिछले चार-पांच वर्षों के दौरान कंपनी ने हर साल औसतन दो उत्पाद उतारे। गोयल ने कहा. 'अन्य कंपनियों के विपरीत होंडा ने भारत में मॉडल में बदलाव का वैश्विक चक्र शुरू किया था।' उन्होंने इस संदर्भ में होंडा सिटी का उल्लेख किया। गोयल ने कहा कि बाढ़, तेल कीमतों में तेजी, रुपये के अवमूल्यन, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी संकट, नियमन में बदलाव, चुनाव संबंधी अनिश्चितता एवं अन्य कारणों से होंडा की बाजार हिस्सेदारी घटी है। इसके अलावा उत्सर्जन मानदंडों में बदलाव, ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव और इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण ग्राहक धारणा भी अच्छी नहीं गोयल का कहना है कि पिछले

साल से पहले के वर्ष में होंडा ने उद्योग की वृद्धि के मुकाबले सात फीसदी अधिक वृद्धि दर्ज की।